

राजभाषा विभाग की अगस्त, 2019 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिनांक 31.08.2019 तक कुल 14842 कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया/ जा रहा है।
- (ii) देश के विभिन्न नगरों में 80 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति और उसमें सुधार के उपायों पर चर्चा की जाती है।
- (iii) विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों में 08 हिंदी कम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- (iv) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अगस्त, 2019 माह में 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 93 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया।
- (v) संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 सांसदों का चयन किया गया।
- (vi) अगस्त, 2019 में कुल 6,836 मानक पृष्ठों की अनूदित सामग्री विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को प्रेषित की गई।
- (vii) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत सहायक निदेशकों (टंकण/आशुलिपि) के लिए दिनांक 05 अगस्त से 09 अगस्त, 2019 तक पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- (viii) दिनांक 19.08.2019 से 23.08.2019 तक गहन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- (ix) विभाग में अगस्त, 2019 माह में 59 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (x) राजभाषा विभाग की वर्ष 2017-18 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तथा वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों को भेजा गया है।
